FINANCIAL EXPRESS

Consumer durable firms expect festive sales to pick up

sumer durable companies

remained a challenge during the

quarter ended June 2022. "Prof-

itability remained challenging -

Ebitda margins dipped 180

basis points below our estimate,

albeit flat y-o-y, owing to high-

cost inventory, limited pricing

action and higher ad-spends

during the quarter," said analysts

gories did well, stress was more

felt on entry segments, given the

high inflationary impact. Vishal

Bhola, managing director

Whirlpool of India said, "The

industry showed good recovery

in mid and premium while the

entry segment was muted with

inflation putting stress on con-

sumerspending."Voltas,reported

a sharp 35% miss on Ebitda due

to an EPC provision-induced loss.

While the company reported 7%

growth in cooling revenue, the

first quarter margins were at a

Some manufacturers also said that while premium cate-

at Edelweiss.

SHUBHRA TANDON New Delhi, August 22

THE ONSET OF festive season this year may bring back some demand for consumer durable products, which has slowed down since end of May, leading to operating margin pressure for companies in the quarter ended June 2022. The sluggishness continued into July as well raising some concerns among the future demand scenario.

While growth projections were at 20-25% over financial year 2019-2020 volumes in the June quarter, the industry has actually witnessed a de-growth of about 10% as the sales slowed down after May 2022.

B Thiagarajan, managing director, Blue Star said that over the past few years the peak demand season is shifting, resulting in March and April becoming the peak buying season for customers. "Of late demand is peaking in March and April and that will be the trend as people tend to buywhen the temperatures are shooting up. This year, there was also fear that the prices will go up and therefore dealers and consumers may have purchased ahead of the usual time,"he said in a recent call.

Anuj Poddar, MD and CEO, Bajaj Electricals said that the demand slowed down from the third week of May, with June seeing weaker demand and that continued into July as well.

Operating income for con-

Tata Motors spent ₹23.7 crore on CSR activities in **FY22**: Tata Motors spent a total of ₹23.7 crore on CSR activities ₹2.395.44 crore in FY21. **-PTI** in FY22 as against ₹23.9 crore a year ago, according to the com-

pany's annual CSR report. Of this, a maximum of ₹8.49 crore was spent on education initiative and the least ₹1.23 crore on environment-related activities, the report said.

The company's standalone revenue from operations in FY22 rose 56.63% to ₹47, 263.68 crore from ₹30,175.03 crore in the previous fiscal.

It reported lower standalone loss at ₹1,390.86 crore during the year ended March 31,2022 as against a standalone loss of



Tender Notice/ Document is available on www.railtelindia.com, https://eprocure.gov.in and https://www.ireps.gov.in. All future Addendum/ comgendum etc. will be uploaded on RailTel website, CPP Portal and IREPS Portal. Bidders have to submit their bid on IREPS Portal only.

Uttam Sugar Mills Limited [Corporate Identity Number (CIN): L99999UR1993PLC032518] Regd. Office: Village Libberheri, Tehsil Roorkee,

District Haridwar, Uttarakhand - 247667

Tel.: 0120 - 4525000, website: www.uttamsugar.in

e-mail id: investorrelation@uttamsugar.in

INFORMATION TO SHAREHOLDERS FOR 27 14 ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 27" Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of the Company will be held on Friday, the 23" September, 2022 at 12:00 noon through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (VC/OAVM) to transact the business(es) as set out in the Notice of AGM, which is being circulated for convening the AGM

In accordance with General Circulars No. 14/2020 dated 8" April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13" April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 5" May, 2020, Circular No. 02/2021 dated 13 January, 2021, Circular No. 19/2021 dated December 8°, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14", 2021 and Circular No. 2/2022 dated May 05", 2022 and Securities Exchange Board of India vide its circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and Circula No.SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13" May, 2022 ("Circulars") have permitted the holding of AGM through VC/OAVM without the physical presence of the Shareholders at a common venue. In compliance with these Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the 27" AGM of the Company will be held through VC/OAVM

As per aforesaid circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for the F.Y. 2021-22 will be sent to all the Shareholders whose e-mail IDs are already registered with the Company Depository Participants. Shareholders may note that the Notice of AGM and Annual Report for the F.Y. 2021-22 will also be available on the Company's website i.e. www.uttamsugar.in and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com & National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited at www.evoting.nsdl.com. Shareholders can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Shareholders attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing remote e-voting facility to all its Shareholders to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote eroungr voting through e-voting system is being provided in the Notice of the AGM

Manner of registering/updating e-mail address

In case Member (s) have not registered their email ID addresses with the Company/ Depository please follow the below instructions to register your email ID for obtaining annual report and login

Physical For shareholders holding shares in Physical Mode-Please send duly signed request with Holding | scanned copy of any one share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN & AADHAR by e-mail at investorrelation@uttamsugar.in with subject line "LOGIN DETAIL REQUIRED FOR AGM OF FOLIO NUMBER: MENTION FOLIO NUMBER)*

For Shareholders holding shares in DEMAT Mode- Please update/register your email Holding | id with your depository participant and send updated copy of client master report at investorrelation@uttamsugar.in with subject line 'LOGIN DETAIL REQUIRED FOR

AGM OF DPID-CLID: MENTION DPID-CLID)". Dividend The Members may please note that Board of Directors have recommended a Final Dividend a

the rate of 20% (i.e., @ Rs. 2.00 (Rupee Two Only) per Equity Shares) of Face Value of Rs. 10/ (Rupees Ten Only) for the Financial Year ended March 31,2022, subject to the approval of the Shareholders at the 27" AGM. The Dividend, if declared, will be paid through Reserve Bank approved electronic mode to those Shareholders who have updated their bank account details with the Company's Registrar and Share Transfer Agent/ Depository Participants. For Shareholders who have not updated their Bank account details, Dividend Warrants/Demand Drafts will be sent to their registered addresses. Members holding shares in physical form who have not updated their mandate for receiving the dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means ("Electronic Bank Mandate"), can register their Electronic Bank Mandate to receive dividends Directly into their bank account electronically or any other means, by sending scanned copy of the following details/ documents at the Company's e-mail address: investorrelation@uttamsugar.in.

details including Name and Branch of the Bank and Bank Account type, Bank Account Number and 11 Digit IFSC Code (b) Self-attested scanned copy of cancelled cheque bearing the name of the Member or the first

(a) Signed request letter mentioning your name, folio number, complete address and Bank

holder, in case shares are held jointly; (c) Self-attested scanned copy of the PAN Card, and

(d) Self-attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving Licence, Passport) in support of the Member as registered with the Company.

For the Members holding Shares in Demat form, please update your Electronic Bank Mandate

through your Depository Participant(s) For Further information/clarification on the above matter, Members can write to the

Company/RTA of the Company at their respective address/ e-mail. By Order of the Board of Directors of the Company

For Uttam Sugar Mills Limited (RAJESH GARG)

At ₹4.2 trillion, auto component firms post record turnover

FE BUREAU Pune, August 22

We expect to see a

strong bounceback

between August and

September, signs of

it are already visible

14-year low, said Edelweiss.

ANUJ PODDAR,

MD & CEO, BAJAJ

Air-cooler manufacturer

Symphonyposted a 6% top-line

outperformance, but missed

analyst expectations on the

Ebitda and net profit owing to

higher advertising and promo-

tion spends, freight and war-

ranties. Similarly, Whirlpool beat

top line by a high single digit ver-

sus consensus driven by seasonal

stocking. However, historically-

low product margins led to an

optimistic that the festive season

demand should augur well and

make up for the lost ground. "We

expect to see a strong bounce

back in August-September, signs

of it are already visible in August.

I see this getting accelerated with

the early festive season and pri-

mary sales should see a pick up

now giving confidence that Q2

will see a healthy bounce back

and Q3 ending up being a decent

quarter," Poddar said.

Companies, meanwhile, are

even steeper miss on Ebitda.

ELECTRICALS

in August."

nent industry clocked its highest-ever turnover of ₹4.2 trillion during FY22 and registered a 23.44% year-onyear growth on the back of strong export performance and growth in the replacement market. In dollar terms, the industry clocked a 23.09% growth to \$56.5 billion. Indian auto component exports grew by 43% to \$19 billion while imports were up 33% to \$8.3 billion to clock a trade surplus of \$700 million for the first time, Automotive Component Manufacturers Association of India (ACMA) said.

THE INDIAN AUTO compo-

Sale of electric vehicle components in FY22, excluding batteries, reached ₹3,520 crore and accounted for around 1% of auto component sales to OEMs. FY22 also saw the auto component aftermarket grow 15% to ₹74,203 crore and touched the \$10-billion mark, led by a surge in

the back of a recovery in the market. The only area of concern was the slowing down in the two-wheeler segment. "Exports grew by 43% to ₹1.41 trillion while imports

demand for used vehicles.

Sales to OEMs grew 22% on

grew by 33% to ₹1.36 trillion leading to a trade surplus,"Vinnie Mehta, director general, ACMA said. North America accounted for 32% of exports and saw a growth of 46%. Europe accounted for 31% and Asia's share was 25%. Key export items included drive transmission & steering, engine components, body/chassis, suspension and braking.

China remained the biggest source of auto components import valued at \$5.46 billion and accounting for 30% of total imports in FY22. FY21 imports from China were at \$4.03 billion. Germany was the second largest source of auto parts imports and accounted for 11% market





SCHNEIDER ELECTRIC PRESIDENT SYSTEMS LIMITED

CIN: U32109KA1984PLC079103 Regd. Office: 5C/1, KIADB Industrial Area, Attibele, Bengaluru - 562107, Karnataka

Phone: 080 67888300

Website: www.schneiderelectricpresident.com; E-mail: sapna.bhatia@se.com NOTICE OF THE THIRTY-EIGHTH (38TH) ANNUAL GENERAL MEETING

(AGM), REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

Notice is hereby given that the Thirty Eighth (38th) Annual General Meeting ("AGM/Meeting") of Schneider Electric President Systems Limited ("the Company") is scheduled to be held on Tuesday, September 13, 2022 at 3:30 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the businesses as set forth in the Notice of the AGM dated May 31, 2022 ("Notice").

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circular Nos. 02/2022, 21/2021 19/2021, 02/2021, 20/2020, 17/2020, and 14/2020 dated May 05, 2022, December 14, 2021 December 08, 2021, January 13, 2021, May 05, 2020, April 13, 2020 and April 08, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") respectively, have granted permission for holding the AGM through VC/OAVM without the physical presence of the members at a common venue. Accordingly, the Company's AGM is scheduled to be held through VC/OAVM only, as per the scheduled date and time.

Members are informed that:

- The Annual Report including Notice for the financial year 2021-22 ("Annual Report") has been sent to all the Members whose email IDs are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or with their respective Depository Participant(s) ("DPs") as on Friday, August 05, 2022, in accordance with the MCA Circulars. The electronic dispatch of Annual Report including Notice has been completed on Monday, August 22, 2022. The Annual Report is also available on the website of the Company at www.schneiderelectricpresident.com and on the website of KFin Technologies Limited ("KFintech") at https://evoting.kfintech.com/.
- In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, read with MCA Circulars and Secretarial Standard-2 on General Meetings, issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), the Company has engaged the services of KFintech to provide to its Members, the facility to cast their votes electronically through remote e-Voting prior to AGM and through e-Voting during the AGM. Members who have cast their votes by remote e-Voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- The remote e-Voting facility before the date of the AGM will be available during the following voting period (both days inclusive):

Commencement of remote e-Voting From 9:00 a.m. (IST) on Saturday, September 10, 2022 End of remote e-Voting Up to 5:00 p.m. (IST) on Monday, September 12, 2022

The remote e-Voting module shall be disabled by KFintech upon expiry of the aforesaid period and hence, remote e-Voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

- A person whose name appears in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Tuesday, September 06, 2022 ("Cut-off Date") shall only be entitled to avail the facility of remote e-Voting and e-Voting at the AGM. Any person who is not a Member on the Cut-off Date should treat the Notice for information purposes only. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company on the said Cut-off Date. Any person, who acquires shares and becomes a member of the Company after the date of electronic dispatch of the Annual Report and holds shares as of the Cut-off Date, may obtain the login ID and password by sending a request at https://evoting.kfintech.com/ or to RTA at gamare@unisec.in. However, if you are already registered with KFintech for e-Voting, you can use your existing User ID and password for casting your votes.
- The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from, Wednesday, September 07, 2022 to Tuesday, September 13, 2022 (both days inclusive).
- Mr. Rupesh Agarwal, failing him Mr. Shashikant Tiwari, Practicing Company Secretaries, Chandrasekaran Associates, have been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-Voting process and e-Voting during the Meeting, in a fair and transparent manner.
- The relevant documents pertaining to the item of business to be transacted at the AGM are available for inspection electronically and shall remain open for inspection at the AGM.
- The voting results of the AGM along with the report of the Scrutinizer shall be declared as per the statutory timelines and will be placed on the website of the Company www.schneiderelectricpresident.com and on KFintech' https://evoting.kfintech.com/.
- In case of any queries/grievances related to e-Voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting User Manual available at the 'download' section of https://evoting.kfintech.com or reach out to Mr. SV Raju at https://evoting.kfintech.com/ or call KFintech on toll free no.1800 309 4001.
- Members are requested to further address the queries/grievances, if any to Ms. Sapna Bhatia-Company Secretary; E-mail Id: sapna.bhatia@se.com;

For detailed instructions and procedure on participation at the AGM, manner of remote e-Voting and e-Voting during the AGM, please refer to the Notice. By Order of the Board

> For Schneider Electric President Systems Limited Sd/-Sapna Bhatia

Indiabulls **MUTUAL FUND** Investment Manager: Indiabulls Asset Management Co. Ltd. (AMC) Registered Office: Plot No. 422, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurugram, Harvana - 122 016. Tel: (0124) - 6681199, Fax: (0124) - 6681111, Website: www.indiabullsamc.com

CIN: U65991HR2008PLC095063

Notice cum Addendum No. 10/ 2022 Notice cum Addendum to the Scheme Information Document (SID), Key Information Memorandum (KIM) of all the below Schemes and Statement of Additional Information (SAI) of Indiabulls Mutual Fund (IBMF) CESSATION OF KEY PERSONNEL OF THE AMC:

Notice is hereby given that Mr. Jayraj Panchal ceases to be the Chief Risk Officer (Key Personnel) of the AMC w.e.f. closing business hours of Wednesday, August 10, 2022

Note: This Notice cum addendum forms an integral part of the SID, KIM of all the Schemes & SAI of IBMF. All other terms and conditions as mentioned in the SID, KIM of all the above mentioned Schemes & SAI shall remain

As per the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their email id and mobile number with us to support paper less communications

For Indiabulls Asset Management Co. Ltd. (Investment Manager to Indiabulls Mutual Fund)

Uday Diwale

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



Compliance Officer

INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LTD

Place : Mumbai

Date : August 22, 2022

(A Government of India Enterprise) CIN: L65910DL1986GOI026363 Room Nos.1316 - 1349, 3rd Floor, The Ashok, Diplomatic Enclave

50-B, Chanakyapuri, New Delhi - 110021 Phone: 011-24100385

Email: investors@irfc.co.in, Website: https://irfc.co.in/

PUBLIC NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that, the 35th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Indian Railway Finance Corporation Limited ("Company") will be held on Friday, 23rd September 2022 at 3:00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") & Other Audio-Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules notified there under and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") to transact the business as set out in the notice calling the AGM. In compliance with the MCA & SEBI Circular(s), the Notice setting out the business to be transacted

at the AGM together with the Annual Report of the Company for the financial year 2021-22 will be sent electronically to those members whose email address is registered with the Company / Depository Participant(s) and hard copy of annual report will be provided to those shareholders who will specifically request for the same. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the Company's website at https://irfc.co.in/ and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of CDSL at www.evotingindia.com. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per Section 103 of the Companies Act, 2013. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of the AGM.

Member(s) who have not registered their e-mail addresses with the Company/Depository, are requested to please follow the following instructions to register their e-mail address so as to receive all communications electronically including annual report, notices, circulars, NACH Intimation etc. sent by the Company from time to time:

Members, holding shares in physical are requested to provide Folio No., Physical holding Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (selfattested scanned copy of Aadhar Card) by email to RTA at irfc@beetalfinancial.com or to Company at investors@irfc.co.in. Demat holding Members holding shares in Demat mode can get their

Further, pursuant to all applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") the Company has additionally enabled a process for the limited purpose of receiving shareholder communications including annual report and notice of the Annual General Meeting (including remote -voting instructions) electronically during the financial year 2022-23 and the Members may

temporally update their email address by writing to company's Registrar and Share Transfer Agent,

E-mail ID registered by contacting their respective Depository

M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd at irfc@beetalfinancial.com. For Indian Railway Finance Corporation Limited

Date: 22" August 2022

Place: New Delhi

Vijay Babulal Shirode **Company Secretary**



Participant.

SHREE RENUKA SUGARS LIMITED Regd. Office: 2nd & 3nd Floor, Kanakashree Arcade, CTS No. 10634,

JNMC Road, Neharu Nagar, Belagavi - 590010 Tel No.: +91-831-2404000 | E-mail: groupcs@renukasugars.com | Website: www.renukasugars.com CIN: L01542KA1995PLC019046

26[™] ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VC / OAVM

NOTICE TO THE MEMBERS OF THE COMPANY REGARDING

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting ('AGM') of the members of

Shree Renuka Sugars Limited ('Company') will be convened on Friday, 16th September 2022 at 11:00 a.m. IST through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') & Rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021 and 02/2022 dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020, 13th January 2021, 8th December 2021 and 5th May 2022 respectively, issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 12th May 2020, 15th January 2021 and 13th May 2022 respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars') to transact the business as set forth in the AGM Notice, without the physical presence of the Members at a common venue. The Notice of the 26th AGM along with the Annual Report for the financial year 2021-22 will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants, in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars. Members who have not registered their e-mail addresses with the Depositories/Company/ Registrar and Share Transfer Agent ('RTA'), so far, are requested to register/update their e-mail addresses in the following manner:

- a) Members who hold shares in electronic/demat form are requested to register their e-mail ID with the Depository through their concerned Depository Participants. However, the members may temporarily register the same with the Company's RTA, M/s. KFin Technologies Limited, at https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/ mobileemailreg.aspx on their website www.kfintech.com/in the Investor services tab by providing details such as Name, DP ID, Client ID, PAN, mobile number and email address.
- Members who hold shares in physical form are requested to register their e-mail ID with the Company's RTA, M/s. KFin Technologies Limited, at https://ris.kfintech.com/ clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx on their website www.kfintech.com/in the Investor services tab by providing details such as Name, Folio No., Certificate number, PAN, mobile number and email address and also upload the image of share certificate in PDF or JPEG format.

On submission of the above details, a One-Time Password (OTP) will be received by the Member which needs to be entered in the link for verification.

Members can participate in the 26th AGM through VC / OAVM only. Necessary arrangements have been made by the Company with KFin Technologies Limited to facilitate e-Voting. The instructions for joining the 26th AGM and the manner of participation in the remote e-voting or casting vote through the e-voting system during the 26th AGM are provided in the Notice of the 26th AGM. Members participating through the VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The Notice of the 26th AGM along with Annual Report will also be available on the website of the Company i.e. www.renukasugars.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of RTA at https://evoting.kfintech.com, after sending the same through email to the shareholders.

This Notice is being issued for the information and benefit of the Members of the Company in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars.

For Shree Renuka Sugars Limited Deepak Manerikar Company Secretary

financialess.epas.in

Date : 22™ August, 2022 Joint Company Secretary & Compliance Officer Place: Noida (Membership No. FCS-5841) Date : August 22, 2022 Place: Bengaluru

Life Is On

Schneider Gelectric

Company Secretary

Date: 23rd August 2022

New Delhi

Place : Mumbai

राहत एवं बचाव अभियान निरंतर

आपदा प्रभावित क्षेत्र में प्रशासन उपलब्ध करा रहा राहत सामग्री

वीर अर्जुन संवाददाता देहरादून, । जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि प्रभावित क्षेत्र में विभिन्न विभागों की टीमें एनडीआरफ, एसडी आरफ, राजस्व, चिकित्सा, वेटनरी, पुलिस विभाग, सिंचाई, जिला पंचायत, लोनिवि, आदि सम्बन्धित विभागों से अधिकारी, कार्मिक आपदा राहत कार्यो लगे हैं तथा जनजीवन को सामान्य लाने में कार्य कर रही हैं तथा क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधा मुहैया कराई जा रही हैं। साथ ही शिविर भी लगाया गया है। जहां पर राहत सामग्री वितरित की जा रही है, कच्चा राशन, गैस सिलेण्डर-चूल्हा, महिला, पुरूष तथा बच्चों के कपड़े, फोल्डिंग पलंग, गद्दे आदि प्रभावितों को वितरित की जा रही है, जो लोग शिविर तक नहीं आ पा रहे उनको पका हुआ भोजन पहुंचाया जा रहा है। साथ ही मकान, कृषि भूमि, फसल नुकशान का आंकलन कर अहैतुक सहायता उपलब्ध कराई



आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करते सीडीओ।

जा रही है। सभी अधिकारियों को युद्धस्तर पर कार्य करते हए जनजीवन को सामान्य बनाने के निर्देश दिए गए है। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आपदा प्रभावित क्षेत्र सरखेत में चिकित्सा टीम तैनात रखने तथा रेस्क्यू आपरेशन के दौरान शव बरामद होने की सम्भावनाओं के

दृष्टिगत पोस्टमार्टम टीम तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे मौके पर ही पोस्टमार्टम करते हुए पंचनामा आदि कार्यवाही सम्पादित की जा सके ताकि परिजनों को अनावश्यक न भटकना पडे। जनपद में विगत शुक्रवार को हुई अतिवृष्टि के

अन्य क्षेत्रों मे जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी सोनिका के दिशा निर्देशन के अनुपालन में सोमवार को मुख्य अधिकारी झरना कमठान, अपर जिलाधिकारी के. के. मिश्रा तथा शिव कुमार चलते आयी आपदा से सरखेत व बरनवाल के नेतृत्व में क्षेत्र में संचालित किया गया जा रहा है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को पेयजल, भोजन तथा अन्य राहत सामग्री वितरित की जा रही हैं [जिलाधिकारी सोनिका के दिशा निर्देशन के अनुपालन में संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा सरखेत में राहत एवं सर्च अभियान को युद्ध स्तर पर संचालित किया जा रहा हैं। एनडीआरफ, एसडीआरएफ, पुलिस व जिला प्रशासन द्वारा राहत एवं खोजबीन कार्य को युद्ध स्तर पर संपादित करने में जुटे है। जिलाधिकारी ने बताया कि सरखेत में लापता हुए लोगों के मालवा में दबे होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए, मलबा को हटाने हेतु दो पोकलैंड मशीन कार्य कर रही है। साथ ही विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त सडक्र मार्ग को सुचारू करने में पर्याप्त मात्रा पर जेसीबी मशीन तैनात की गई है। पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति भी को सुचारू करने में टीम जुटी

मंडलायुक्त ने अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए

वीर अर्जुन संवाददाता

देहरादून, । आयुक्त गढवाल मण्डल सुशील कुमार ने गढवाल मण्डल क्षेत्रान्तर्गत जनपद देहरादून, टिहरी, एवं पौडी गढवाल में शुक्रवार रात्रि हुई अतवृष्टि में हुए नुकसान के सम्बन्ध में नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए। खोजबीन सर्च कार्य जारी है। आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई है।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 04 जनहानि हुई है। गढवाल मण्डल में अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 04 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिनमें से टिहरी जनपद में 02 तथा देहरादून जनपद में 01 एवं पौडी़ जनपद में 01 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। जबकि 14 लोग लापता हैं। जनपद टिहरी से 07 तथा जनपद देहरादून से 07 लोग लापता है। लापता लोगों की खोजबीन का कार्य गतिमान है। पैदल मार्ग, पेयजल लाइन एवं एक



संपत्तियों को नुकसान हुआ है। जिनका आकलन राजस्व विभाग के टीम द्वारा किया जा रहा है। गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान व सम्पत्ति पुर्ननिर्माण अनुदान के संबंध में जांच कर प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। एक राजकीय हेलीकाप्टर

एन.डी.आर.एफ. एस.डी.आर.एफ. 64 जवानों के अलावा पुलिस, राजस्व व स्वास्थ्य विभाग की टीमें बचाव व राहत कार्यों में लगी हैं। आपदा से हुई कृषि नुकसान का आकलन करने हेतु राजस्व की टीम लगाई

पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने की अधीनस्थ चयन आयोग की घेराबंदी

वीर अर्जुन संवाददाता

देहरादून, । उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की स्नातकीय परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद अब कांग्रेस ने आयोग को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि पूरे प्रदेश में परीक्षा कराने वाली एजेंसी की भूमिका भी हर परीक्षा में संदिग्ध हैं। आयोग की सभी भर्तियों की सीबीआई जांच कराई जाए। सोमवार को राजपुर रोड स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में सभी भर्ती परीक्षाओं में पेपर छपते समय लीक होने की बात लगातार सामने आ रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि आयोग के जिम्मेदार लोग अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह नहीं कर रहे थे, क्योंकि पेपर छपने की गोपनीयता एवं



पत्रकार वार्ता के दौरान काग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व अन्य।

सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी अध्यक्ष और सचिव की थी। उन पर तत्काल प्रभाव से लापरवाही बरतने के लिए पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में सरकारों द्वारा परीक्षाओं में गडब़ड़ी करने के कारण एजेंसी

पर प्रतिबंध लगाया गया और ब्लैक लिस्टेड किया गया था। उत्तर प्रदेश के थाने में उपयुक्त एजेंसी पर अभियोग पंजीकृत है। इसी प्रकार उत्तराखंड में भी जिम्मेदार लोगों पर एसटीएफ को अभियोग दर्ज करना चाहि इस दौरान विधायक भुवन कापडी ने

आरोप लगाया कि आरोपित हाकम सिंह के साथ राज्य के पुलिस के बडे-बडे अधिकारियों, प्रशासन के अधिकारियों और भाजपा के मंत्री व नेताओं के फोटो रोज इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जिससे प्रदेश के युवाओं का मनोबल निरंतर गिर रहा है। क्योंकि एसटीएफ राज्य सरकार के अधीन काम करने वाली संस्था है, उसके अधिकार भी राज्य में सीमित हैं तो आप समझ सकते हैं कि आगे एसटीएफ की जांच किस प्रकार चलेगी। राज्य एजेंसी होने के कारण उनकी जांच को प्रभावित किया जा सकता है। वहीं अब पेपर लीक का मामला उत्तर प्रदेश से भी जुड़ चुका है। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। ऐसे में एसटीएफ का दूसरे राज्य में जांच करना संभव नहीं होगा। अत: हम राज्य सरकार से मांग कर मांग

महाराज ने रक्षा राज्य मंत्री से कहा अग्निवीर भर्ती में मानकों की हो जांच

वीर अर्जुन संवाददाता देहरादुन, । प्रदेश के पर्यटन, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, लोक निर्माण, सिंचाई, जलागम धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कोटद्वार में चल रहे अग्निवीर भर्ती में प्रदेश के युवाओं को हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों का संज्ञान लेते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से वार्ता कर इसकी जांच किये जाने का अनुरोध किया है। प्रदेश के पर्यटन, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, लोक निर्माण, सिंचाई, जलागम धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कोटद्वार में चल रहे अग्निवीर भर्ती में प्रदेश के युवाओं को हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों का संज्ञान लेते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से दूरभाष पर वार्ता कर उन्हें बताया कि अग्निवीर भर्ती के दौरान राज्य

के 300 युवाओं को एक साथ दौडाया जा रहा है और उसमें से भी मात्र 8 या 10 युवाओं को ही चुना जा रहा है। जबकि शारीरिक में पूर्व में औसतन 300 में से 60 का चयन किया जाता था। श्री महाराज ने कहा कि कोटद्वार में 19 अगस्त 2022 से 31 अगस्त तक बीआरओ लैन्सडाउन अग्निवीरों की भर्ती कर रहा है। भर्ती होने वाले युवाओं का कहना है कि भर्ती के दौरान नियमों की अनदेखी की जा रही है। दौड? का समय 1600 मीटर के लिये 5.40 सेकन्ड है लेकिन वह सिर्फ 5 मिनट में ही दौड़ को समाप्त कर दे रहे हैं। उतराखण्ड के जवानों के लिए 163 सेन्टीमीटर लम्बाई है जो कि स्वर्गीय पूर्व थलसेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने उतराखण्ड

ई—मेल आईडी: investorrelation@uttamsugar.in

जीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित करना

ादद्वारा सुचित किया जाता है कि एजीएम की सुचना, जो कि एजीएम के आयोजन के लि

मंत्री गणेश जोशी ने आपदा पीड़ितों

को राहत राशि के चेक वितरित किए

देहरादून, वीर अर्जुन संवाददाता। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी

गोमवार को शिव जूनियर हाई स्कूल मालदेवता में सरखेत आपदा

ाभावित परिवारों को राहत राशि के चेक वितरित किए। इस अवसर पर

ांत्री श्री जोशी ने स्कूल के राहत शिविर में रह रहे आपदा प्रभावित

परिवारों का हालचाल जाना तथा उनकी समस्याओं की जानकारी ली।

भ्राम बैठक शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 को दोप. 12.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो वेडियो माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। रिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020

रिपन्न सं. 20/2020 दिनांक 5 मई. 2020, परिपन्न सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 रिपन्न सं. 19/2021 दिनांक 8 दिसम्बर, 2021, परिपन्न सं. 21/2021 दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 ौर परिपत्र सं. 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने अपने परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएमडी1/सीआईआर/ पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2 /सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 ("परिपन्न") के माध्यम से आम स्थल पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिन ोसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन की अनुमति दी है। इन परिपत्रों और कम्पनी मधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों तथा सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकत वेनियम, 2015 के अनुपालन में कम्पनी की 27वीं एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोरि

उपरोक्त कथित परिपत्रों के अनुसार वित्त वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ई–मेल आईर्ड ाइले से ही कम्पनी ⁄ डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। सदस्यगण कृपया नोट करें कि एजीएग ही सूचना और वित्त वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइद ww.uttamsugar.in स्टॉक एक्सचेजों की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड vww.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड www.nseindia.com और ाशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर र्भ कते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिये गये हैं। वीसी/ओएवीए हे माध्यम से बैठक में शामिल होने वाले सदस्यगणों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की रा 103 के अनुसार कोरम के प्रयोजन हेतु की जाएगी।

जीएम के वैरान ई–वोटिंग सिस्टम ("ई–वोटिंग") के माध्यम से अपना वोट देने की भी चुविधा पलब्ध करा रही है। रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने की धिस्तृत

ई-मेल पता पंजीकरण/अपडेट कराने की प्रक्रिया जेन सदस्यों ने कम्पनी / डिपॉजिटरी के पास अपना ई–मेल पता पंजीकत नहीं कराया है जीकत कराने की प्रक्रिया का पालन करें।

भौतिक भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए – कृपया विधिवत हस्ताक्षरित अनुरे पत्र के साथ कोई एक शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे), पैन एवं आधार कार्ड की स्व—सत्यापि प्रति की स्कैन कॉपी "एजीएम के लिए अपेक्षित लॉगईन विवरण फोलियो नम्बर: फोलियो नम्

डिमैट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी लाइंट मास्टर कॉपी की अपडेट प्रति के साथ 'एजीएम के लिए अपेक्षित लॉगिन विव ोपीआईडी–सीएलआईडी : डीपीआईडी–सीएलआईडी वर्णित कर' उसे ई–मे estorrelation@uttamsugar.in पर भेजें।

ादस्यगण कृपया नोट करें कि निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंकित ्ल्य रु. 10 / — (दस रुपए) के 20 प्रतिशत (अर्थात् रु. 2.00 (दो रुपए) प्रति इक्विटी शेयर की दर फ मंतिम लामांश की सिफारिश की है जो 27वीं एजीएम में अनुमोदन के अधीन है। लामांश, यदि घोषित हो जाता है तो उन शेयरघारकों को रिजर्व बैंक अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुगतान किया जाए जिन्होंने अपना बैंक खाता विवरण कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट / डिपॉजिटरी प्रतिभा पास अपडेट कराया है। जिन शेयरधारकों ने अपना बैंक खाता विवरण अपडेट नहीं कराया है उर नाभांश वारंट / डिमांड ड्राफ्ट उनके पंजीकृत ई–मेल पते पर भेजा जाएगा। भौतिक प्रारूप में शेयर धार रने वाले सदस्यगण इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस या किसी अन्य माध्यम ("इलेक्ट्रॉनिक बैंक मेंडेट" माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली सीधे अपने बैंक खाते में लाभांश वारंट/मेंडेट प्राप्त करने के लि निलिखित विवरण / दस्तावेज कंपनी के ई—मेल investorrelation@uttamsugar.in पते पर भेजें: p) अपना नाम, फोलियो नम्बर, पूरा पता एवं बैंक विवरण सहित बैंक का नाम एवं शाखा का नाम, बैंक बाता प्रकार, बैंक खाता संख्या एवं 11 अंकों का आईएफसीआई कोड के साथ अनुरोघ पत्र भेजें। i) संयुक्त धारित शेयरों के मामले में सदस्य या पहले धारक के नाम पर बने की कैंसल की ग

पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और कोई अन्य दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, डाइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट) की स्व–सत्यापित प्रति कंप डेमेट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अप

–सत्यापित प्रति।

तिथिः 22 अगस्त, 2022

लेक्ट्रॉनिक बैंक मेंडेट अपडेट कराएं। . परोक्त विषय पर किसी भी जानकारी / स्पष्टीकरण के लिए सदस्यगण कंपनी / कंपनी के आरटीए

उनके संबंधित पते / ई–मेल पर लिख सकते हैं।

कते उत्तम शगर मिल्स लिमिटेड (राजेश गर्ग नी सचिव एवं अनुपालन अधिका

वीर 🕦 अउ

देहरादून में समाचार पत्र प्राप्त करने एवं विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।

वीर अर्जुन की प्रतियां प्राप्त करने के लिए संपर्क करें:-

मो.7895189235

वसीम अहमद देहरादून:-मो.-9758325677

चन्दर न्यूज एजेंसी रुडकी:-

प्रो.- श्री चन्द्रभान, दुकान नं. 11, पुराना रेलवे रोड, मकतुलपुरी रुड़की मो.- 9927069871

आत्रे न्यूज एजेंसी हरिद्वार:-

प्रो.- श्री अनिल कुमार शर्मा ,जटवाड़ा पुल, हरिद्वार मो.- 9837177797

ऋषिकेश:-आजाद न्यूज एजेंसी प्रो.- श्री संजीव गुप्ता हरिद्वार रोड, ऋषिकेश

मो.- 9837229222

डीएम ने राहत शिविर का जनसुनवाई कार्यक्रम में डीएम ने सुनीं जन शिकायतें, 45 शिकायतें हुईं दर्ज वीर अर्जुन संवाददाता

निरीक्षण किया

सोनिका ने स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काऊ के साथ सौंग नदी के क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को रायपुर थानो मार्ग पर आवाजाही खालन हुत् व्यवस्था बनान क निर्देश दिए। इसके उपरान्त उपकरण एवं दवाईयों सहित मौके जिलाधिकारी द्वारा मालदेवता राजकीय जूनियर हाईस्कूल में बनाये गए शिविर का निरीक्षण करते हुए वहां ठहराये गए प्रभावित लोगों परिवारों का हाल-चाल जाना। तथा संबंधित अधिकारियों

वीर अर्जुन संवाददाता

देहरादून, । जिलाधिकारी

को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो इसके लिए अधिकारी सम्चित मूलभूत व्यवस्थाएं बनाए रखें। उन्होंने प्रभावितों हेतु भोजन, रहने आदि व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लोगों की स्वास्थ्य जाच हत् टाम का पर मौजूद रखने के निर्देश दिए। जिला पूर्ति अधिकारी को प्रभावित परिवारों हेत पर्याप्त मात्रा में राशन तथा भोजन के पैकेट बनवाते हए जो लोग शिविर तक नहीं आ पा रहे हैं उनको भोजन के पैकेट को निर्देशित किया कि प्रभावितों पहुंचाने के निर्देश दिए।

देहरादून, । जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें 45 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें अधिकतर शिकायतों संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके पर ही निस्तारण किया गया। तथा शेष शिकायतों को जिलाधिकारी द्वारा यथाशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में स्थानीय मा0 विधायक उमेश शर्मा कॉऊ भी क्षेत्र में की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से मिले।

आज जनसुनवाई कार्यक्रम में अतिक्रमण, भूमि कब्जा, भूमि मुआवजा कम मिलने, पेंशन, आय प्रमाण पत्र निर्गत करने, दाखिल खारिज, सीमांकन, सीवर का पानी घरों में घुसने, आन्दोलनकारी चिन्हिकरण, भूमि पट्टा यथावत रखने, सरकारी भूमि पर कब्जा हटवाने, कोविड के दौरान शासकीय सेवाओं में लगे वाहनों का भूगतान दिलाने, पडोसियों



रोकने आदि शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त हो रही शिकायतों जिनका मौके पर निस्तारण नहीं हुआ है उनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जो शिकायत जनसुनवाई में एक बार

आ गई है वह दोबारा न आए। उससे पहले ही उसका समाधान हो जाए यदि किसी शिकायत निस्तारण में समय लग रहा है तो शिकायतकर्ता को भी अवगत करा दिया जाए। उन्होंने कलेक्ट्रेट में शिकायत पटल को भी निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का फॉलोअप करते हुए संबंधित विभाग को अनस्मारक प्रेषित करें।

लोनिव व सिंचाई विभाग के अधिकारी

राज्य में पूरे सितंबर माह स्टार्टअप से संबंधित कार्यक्रमों का होगा आयोजन

देहरादुन, । विधान सभा स्थित कक्ष में उद्योग मंत्री चन्दन राम दास द्वारा हेडस्टार्ट नेटवर्क फाउंडेशन एवं स्टार्टअप उत्तराखण्ड के संयुक्त तत्वाधान में भारत पिचेथोन एवं स्टार्टअप सितम्बर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। मंत्री ने कहा कि हेडस्टार्ट नेटवर्क फाउंडेशन द्वारा भारत पिचेथोन कार्यक्रम सम्पूर्ण देश में 21 से भी ज्यादा शहरों में आयोजित किया जा रहा है जिसके अतंर्गत छोटे शहरों के स्टार्टअप को अपने बिजनेस को इन्वेस्टर्स के सामने प्रस्तुत करने का मौका प्रदान किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में भारत पिचेथोन का आयोजन गढवाल में

24 अगस्त को रूडक़ी एवं कुमांऊ



स्टार्टअप से संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में बैठक लेते विभागीय मंत्री चंदन राम दास।

में 27 अगस्त को अल्मोडा शहर में किया जायेगा। भारत पिचेथोन के शीर्ष तीन स्टार्टअपस् को हेडस्टार्ट के बेंगलुरू में होने वाले

वार्षिक आयोजन में देश भर के अन्य स्टार्टअपस् के साथ प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में हेडस्टार्ट

यूनियन वैंक ऑफ इंडिया का जेसीबी इंडिया लि. के साथ समझौता ज्ञापन

वीर अर्जुन संवाददाता देहरादून,। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जेसीबी को ग्राहकों को उपस्कर वित्त प्रदान करने के लिए जेसीबी इंडिया लिमिटेड (जेसीबी) के साथ साझेदारी की है। साझेदारी के तहत युनियन बैंक ऑफ इंडिया और जेसीबी ने पारस्परिक रूप से अपने संसाधनों को एक साथ लाने और पारस्परिक लाभ के लिए एक-दूसरे के साथ जुड़ने पर सहमति व्यक्त की है। बैंक की व्यापक पहुंच से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और जेसीबी दोनों

हेताओं को सर्वोत्तम पेशकश प्रदान करने में मदद मिलेगी। जेसीबी इंडिया भारत में निर्माण संबंधी उपकरणों का सबसे बडा निर्माता है और ग्लोबल जेसीबी समूह यू.के. का हिस्सा है। समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर सी.एम. मिनोचा, महाप्रबंधक, एमएसएमई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अनुज तोमर, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट और हेड-रिटेल फाइनेंस, जेसीबी इंडिया लिमिटेड ने मुंबई में हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर

को देश भर में जेसीबी मशीनों के सी.एम.मिनोचा, सीजीएम, एमएसएमई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने संबोधन में कहा कि ष्हमारे मौजूदा और नए ग्राहकों के लिए उपस्कर वित्तपोषण को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा श्बाजार नेतृत्व के लिए उत्कृष्ट उत्पाद के रूप में पहचाना गया है। जेसीबी इंडिया लिमिटेड के साथ यह गठबंधन जेसीबी और युनियन बैंक ऑफ इंडिया दोनों के ग्राहकों को बैंक की उपस्कर वित्तपोषण योजना के तहत अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पेशकश में सहायता करेगा।

नियमित करें पुलों की निगरानी: महाराज फाउंडेशन द्वारा स्टार्टअप सितंबर का भी वीर अर्जुन संवाददाता श्भारम्भ हो गया है। स्टार्टअप सितंबर 2022 को अतंर्गत उत्तराखण्ड के प्रत्येक जिले में पूरे सितंबर माह स्टार्टअप से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा जिससे

उत्तराखण्ड के युवाओं को स्टार्टअपस् से जुडी़ हुई जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। बैठक में निदेशक उद्योग सुधीर दिए हैं। प्रदेश के पर्यटन, चन्द्र नौटियाल, विभागीय अधिकारी तथा हेडस्टार्ट नेटवर्क निर्माण, सिंचाई, जलागम धर्मस्व एवं फाउंडेशन से उत्तराखण्ड चौप्टर संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने लीड वरूण तिवारी उपस्थित रहे। अतिवृष्टि के चलते मालदेवता, बांदल

देहरादुन, । प्रदेश में बारिश से हुए नुकसान को लेकर प्रदेश के पर्यटन, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, लोक निर्माण, सिंचाई, जलागम धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों ने सहायता पहुंचाने के साथ-साथ खाद्यान सामग्री भी पहुंचाने के निर्देश पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, लोक

घाटी स्थित सरखेत और यमकेश्वर सहित अन्य स्थानों पर हुई जानमाल की क्षति चिंता जाहिर करते हुए लोक निर्माण विभाग के एचओडी अयाज अहमद और सिंचाई विभाग के एचओडी को निर्देश दिए हैं कि जितने भी पुल है उनका लगातार निरीक्षण किया जाए। श्री महाराज रे जिलाधिकारी पौड़ ? से वार्ता कर निर्देश दिए कि यमकेश्वर के प्रभावित क्षेत्रों में लेखपाल को भेजकर रिपोर्ट तैयार करवाई जाए ताकि लोगों को आंशिक सहायता के साथ-साथ

खाद्यान्न पहुंचाया जा सके।

वरिया नंडल वाणिज्य प्रबंधक/ कोंचिंग, (ए.सी.ली.) उरार रेलवे, मुरादाबाद मंडल के द्वारा ये एन्ड यूज, शौवालय (को एंड र्म) - के आधार पर मर्जिंग, ए.टी.एम. विश्वापन के कार्य को बोली के नाम्यम से ठेके पर वेर्ने हेटु बोजीमों <u>wexkress.govin</u> पर आपंजिल को जाती है, जिसकी विश्तृत जानकारी, निवम व शर्ते www.imps.gov.in पर जपलबा है।

कैंटेनरी	कैटलॉन संख्या	एसेट बिटेल	ई-बोली की आरंग शिक्ष	ई-बोली की अन्तिम शिविर
विश्वापन	22-MB-hFR-4	ट्रेनी के उत्तर विनायत रेपिंग	05.09.2022 10.00 am	05.09.2022 11.30 am
		डोकिंग के नाध्यन से डरिक्स रेजने स्टेसल पर विश्वापन डेजु		
		360 किसी LED के मध्यम बरेली रेलवे स्टेशन पर विश्वासन हेंदू		
पर्सिन	22-MB- Parking-2	कुराध्याय द्वितीय अतंत्र द्वार एवं योग गगरी ऋषिकेत रुतये स्टेशन पत्र कार पार्थिम और कुलप्दश्वर, स्थीवरा, योग नगरी आषिकेत, सामपुर, मेराजी-येग एवं द्वितीय प्रवेद द्वार, पिलसूक्त, शावजातीपुर-दितीय प्रवेश द्वार, कुराध्याय-द्वितीय अतंत द्वार, शमुख-द्वितीय अतंत द्वार, उत्तरोई चन्दौसी एवं गळरीला देलवे स्टेशानों स्व सञ्चवितर व्यूटा स्टेग्ड केंद्र।	06.09.2022 10.00 am	06.09.2022 13.00 pm
पे रह पूज, शीधालय	22-MB- PnU-4	हापुत्र कवळी. शाहजहींपुर-सल्युलेटिंग ऐरिया, द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय एवं शास्त्र रेलवे व्टेशनों के ये एंड मूज, श्रीचालयों ओ एंड एम के साध्यम हेतु	06.09.2022 15.00 pm	05.09.2022 16.10 pm
ए टी.एम	22-MB- NTM-1	शाहनहाँपुर, हत्योई, अमलेटा एवं देहरादून रेजवे स्टेशनों हेतु।	05.09.2022 13.00 pm	05.09.2022 14.00 pm
	0.00		Common C	2132